

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 338]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अगस्त 2015—श्रावण 30, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2015

क्र. बी-11-3-2015-14-2.—मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक/बी-11/03/2015/14-2, दिनांक 15.5.2015 द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम खरीफ 2015 हेतु पटवारी हल्का स्तर की अधिसूचना जारी की गई थी, जारी अधिसूचना में जिला रायसेन, देवास, सागर, सिवनी एवं दतिया की संलग्न संशोधित सूची अनुसार उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है । मौसम खरीफ वर्ष 2015 की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

| | | | | | | | | | |
|--|---------|----------|-----------------------|-----------|--|---------|--|--|--|
| | | 00021 | याराबेडा | | | सोयाबीन | | | |
| | | 00022 | गुलगांव | | | सोयाबीन | | | |
| | | 00023 | उंचेर | | | सोयाबीन | | | |
| | | 00024 | मडवाई | | | सोयाबीन | | | |
| | | 00025 | साधो | | | सोयाबीन | | | |
| | | 00026 | दकना घपना | | | सोयाबीन | | | |
| | | 00027 | धिरहोली | | | सोयाबीन | | | |
| | | 00028 | पम्नेधर | | | सोयाबीन | | | |
| | | 00029 | यारला | | | सोयाबीन | | | |
| | | 00030 | कौटरा | | | सोयाबीन | | | |
| | | 00031 | माखनी | | | सोयाबीन | | | |
| | | 00032 | सदासक्तपुर | | | सोयाबीन | | | |
| | | 00033 | सेयासनी | | | सोयाबीन | | | |
| | | 00034 | सिलपुरी | | | सोयाबीन | | | |
| | | 00035 | गोपेन्द्र संतकण्डा | धानसिंचित | | | | | |
| | | 00036 | सेह्वनगंज | | | सोयाबीन | | | |
| | | 00037 | पोपल खिरिया | | | सोयाबीन | | | |
| | | 00038 | खरवाई | | | सोयाबीन | | | |
| | | 00039 | रगपुरा केरारी | धानसिंचित | | सोयाबीन | | | |
| | | 00040 | नांद | धानसिंचित | | सोयाबीन | | | |
| | सिलयानी | | | | | | | | |
| | सिलयानी | | | | | | | | |
| | | 00021 | बम्होरी कर्मा | | | सोयाबीन | | | |
| | | 00022 | बर्धा | धानसिंचित | | सोयाबीन | | | |
| | | 00023 | रुमरांजिर | | | सोयाबीन | | | |
| | | 00025 | सिगरिया कला | धानसिंचित | | सोयाबीन | | | |
| | | 00026 | साई खेड़ा | धानसिंचित | | सोयाबीन | | | |
| | | 00027 | बटेर | धानसिंचित | | सोयाबीन | | | |
| | | 00028 | छेरी | | | सोयाबीन | | | |
| | | 00029 | खगरिया मानपुर | धानसिंचित | | | | | |
| | | 00031 | सुनिय | धानसिंचित | | सोयाबीन | | | |
| | | 00032 | सिलयानी | धानसिंचित | | | | | |
| | | 00033 | नीगरी | | | सोयाबीन | | | |
| | | 00034 | डुगरिया कला | धानसिंचित | | सोयाबीन | | | |
| | | 00036 | जैलानु | धानसिंचित | | सोयाबीन | | | |
| | | 00038 | धिचौली | धानसिंचित | | सोयाबीन | | | |
| | | 00039 | देवरी जागीर | धानसिंचित | | सोयाबीन | | | |
| | | 00040 | गठाकोडी | धानसिंचित | | सोयाबीन | | | |
| | | 00041 | देवरी मनकापुर | | | सोयाबीन | | | |
| | बेगमगंज | तुलसीपार | 00039 | सुनेटी | | सोयाबीन | | | |

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी
हल्को की सूची

| मौसम खरीफ | | वर्ष 2015-2016 | | 100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की | | | | | | |
|-----------|--------|----------------|-----------------|--|------------|-------------|---------|------|-------|-------|
| जिला | तहसील | रा.नि.म.का नाम | पटवारी हल्का न. | पटवारी मुख्यालय का नाम | धान सिंचित | धान असिंचित | सोयाबीन | तुअर | मक्का | बाजरा |
| देवास | कन्नौद | कन्नौद | 00001 | खरी | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00002 | पानीगाव | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00003 | बिजवाड़ा | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00004 | हतनोरी | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00005 | महुडिया | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00006 | बावडीखेड़ा | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00007 | शूरिया | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00008 | किलोदा बी | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00009 | बागनखेड़ा | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00010 | अडानिया | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00011 | कुसमानिया | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00012 | जांगडा | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00013 | सिया | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00014 | नान्दोन | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00015 | भिलाई | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00016 | काटकूट | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00017 | शेरगोना | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00018 | हतलाय | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00019 | सानखेडी | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00020 | पिपल्दा | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00021 | ननासा | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00022 | बहिरावद | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00023 | कन्नौद | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00024 | कलावर | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00025 | चपलासा | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00026 | रतवाय | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00027 | डोकाखुर्द | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00028 | गुढवेल | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00029 | पांगरा | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00030 | उहरिया | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00031 | बामनीखुर्द | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 00032 | अग्वाडा | - | - | सोयाबीन | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|----------|-------|---------------|---|---------|---|---|---|
| | | 00033 | खारपा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00034 | रायपुरा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00035 | सुरानी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00036 | किलोदा पी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00037 | पीपलकोटा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00038 | कोथमीर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00039 | बुरुट | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00040 | पिपलानी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | खातेगांव | | | | | | | |
| | | | खातेगांव | | | | | |
| | | 00035 | सन्दलपुर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00037 | खातेगांव | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00038 | पाडयादेह | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00041 | बरवाई | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00042 | भटासा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00043 | तमलासा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00044 | छायती | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00045 | अजनास | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00046 | मालसगोदा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00047 | उमरिया | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00048 | कांजीपुरा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00049 | दुदवास | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00050 | भेलपिपल्या | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00051 | मिर्जापुर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00052 | कणाबुजुर्ग | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00053 | खुडगांव | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00054 | राजौर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00055 | बागदा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00056 | भीलखेडी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00057 | साक्ट्या | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00058 | बरछाबुजुर्ग | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00059 | सवासडा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00060 | बजवाडा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00061 | लवरास | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00062 | जामनेर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00064 | मुरझाल | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00063 | नेमावर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00065 | बुराडा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00066 | पिपल्याजानकार | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00067 | सोनगांव | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00068 | इकलेरा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00069 | बिजापुर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00070 | धुंध्याखेडी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00071 | नवलगांव | - | सोयाबीन | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------------|--|--|---------|---|---|---|
| | | 00072 | बीजलगांव | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00073 | कोलारी | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00074 | खिडक्या | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | हरणगांव | | | | | | |
| | | 00001 | औंकारा | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00002 | ककडदी | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00003 | विक्रमपुर | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00004 | सागोनिया | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00005 | आमला | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00006 | मनोरा | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00007 | पटरानी | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00008 | कलडानी | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00009 | निवर्दी | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00010 | भद्यवास | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00011 | पलासी | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00013 | गनोरा | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00012 | हरणगांव | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00014 | अमेली | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00015 | सुलगांव | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00016 | बंडी | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00017 | किशनपुर | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00018 | तिली | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00019 | ओलम्बा | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00020 | सुकरास | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00021 | सोमगांव | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00022 | सुकरडी | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00023 | रीली | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00024 | सन्नोड | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00025 | तिवडिया | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00026 | पुरोनी | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00027 | जियागांव | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00028 | कांकरिया | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00029 | देवला | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00030 | बचखाल | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00031 | खल | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00032 | खारदा | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00033 | दीपगांव | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00034 | शूजलगांव | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00036 | बडदा | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00039 | घदवाना | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00040 | डिडाली | | | सोयाबीन | - | - | - |
| | बागली | | | | | | | | |
| | | | उदयनगर | | | | | | |
| | | 00038 | सोबल्यापुरा | | | सोयाबीन | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--------------|---|---------|---|---|---|
| | | 00039 | पुंजापुरा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00040 | पलासी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00041 | रूपलीपुरा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00042 | बोरखाल्या | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00043 | पोस्तीपुरा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00044 | बोरपढाव | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00045 | फारसपीपली | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00046 | चन्दुपुरा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00047 | करडी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00048 | मानसिहपुरा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00049 | भीकूपुरा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00050 | रातातलाई | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00051 | नीमखेडा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00052 | पानकुआ | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00053 | आगराखुद | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00054 | सिवनपानी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00055 | मगरादेह | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00056 | पटाडीपाला | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00057 | देवनलिया | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00058 | महीगंव | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00059 | कनाड | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00060 | सीतापुरी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00061 | आनंदनगर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00062 | बिसाली | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00063 | पाण्डूतालाब | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00064 | श्यामपुरा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00065 | पिपल्यालोहार | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00066 | मिर्जापुर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00067 | इमलीपुरा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00068 | हीरापुर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00069 | उदयनगर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00070 | रामपुरापटपडी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00071 | किशनगढ | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00072 | पिपलपाटी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00073 | पोताखाल | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00074 | निमनपुर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00075 | पीपरी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00076 | पोटला | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00077 | धारडी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00078 | देवझिरी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00079 | गुराडदा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00080 | रतनपुर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00081 | बावडीखेडा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | बागली | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--------------|---|---------|---|---|---|
| | | 00001 | झिकडाखेडा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00002 | बरखेडासोमा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00003 | करनावद | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00004 | भमोरी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00005 | इकलेरा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00006 | बिज्जुखेडा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00007 | चापडा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00008 | अमरपुरा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00009 | पिपल्याजान | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00010 | मातमौर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00011 | बिलावली | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00012 | इस्माईलखेडी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00013 | सामगी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00014 | कमलापुर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00015 | गोपीपुर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00016 | खेडाखाल | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00017 | करौंदिया | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00018 | आगुली | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00019 | पोलाय | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00020 | बेडामऊ | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00021 | घारिया | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00022 | आवल्दा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00023 | नयापुरा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00024 | छतरपुरा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00025 | तरखवाडा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00026 | गुराडियाकला | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00027 | मुकुन्दगढ | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00028 | बेहरी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00029 | धावडिया | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00030 | गुवाडी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00031 | घारबडी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00032 | अम्बापानी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00033 | सेवन्धाखुर्द | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00034 | बागली | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00035 | जटाशंकर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00036 | डांगराखेडा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00037 | बरझाई | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | सतवास | | | | | | | |
| | | सतवास | | | | | | |
| | | 00001 | बोरानी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00002 | सुन्देल | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00003 | बधावा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00004 | हीरापुर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00005 | डेहरी | - | सोयाबीन | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|--------------|---|---------|---|---|---|
| | | 00006 | जिनवानी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00007 | भायली | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00008 | जानसूर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00009 | नयापुरा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00010 | लेहकी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00011 | भैसून | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00012 | डांगराखेडा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00013 | कोठडी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00014 | मोहाईजागीर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00015 | बामनीबुजुर्ग | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00016 | पलासी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00017 | लोहदो | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00018 | कांटाफोड | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00019 | गोदना | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00020 | बेरागढ | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00021 | सिगलादेह | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00022 | सुरमान्या | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00023 | इकलेरा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00024 | बेडगांव | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00026 | खल | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00025 | सत्तामतपुरा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00050 | खारिया | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00049 | निमलाय | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00048 | पोखरखुर्द | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00046 | भामर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00047 | धासड | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00045 | बाईजगवाडा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00044 | नामनपुर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00043 | टिपरास | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00042 | भण्डारिया | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00041 | बिचकुआ | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00027 | रहमानपुरा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00028 | डाबरीबुजुर्ग | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00029 | सतवास | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00030 | अनवास | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00031 | पांगरी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00032 | गडीझाबरिया | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00033 | खिरोन्दा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00034 | बडकनखारी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00035 | बडोदामाफी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00036 | बाल्या | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00037 | सिंदरानी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00038 | निमासा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00039 | गाढागांव | - | सोयाबीन | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|----------------|---|---------|---|---|---|
| | | 00040 | गोलागुठान | - | सोयाबीन | - | - | - |
| सोनकच्छ | | | | | | | | |
| | भौरासा | | | | | | | |
| | | 00031 | बिसाखेडी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00032 | भनासा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00033 | एनाबाद | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00034 | भूतियाखुद | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00035 | ढाबलाजागीर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00036 | जलोदिया | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00037 | कुमारिया राव | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00038 | रोलूपिल्या | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00039 | सादीखेडी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00040 | भलाईखुद | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00041 | कुलाला | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00042 | भौरासा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00043 | कोकडदा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00044 | बोलासा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00045 | बुदनगाव | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00046 | खोनपीरपिल्या | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00047 | फावडा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00048 | सरसीदा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00049 | इकाच्या | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00050 | पान्दाजागीर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00051 | पालाथजागीर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00052 | जगदीशपुर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00053 | बावई | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00054 | ओढ | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00055 | सावेर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00057 | भागसरा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00058 | जलेरिया | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00059 | पिपल्याबकसू | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00060 | घटियाभाना | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00061 | जामोदी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | सोनकच्छ | | | | | | | |
| | | 00001 | पिपलराधा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00002 | घटियाकलां | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00003 | पिरपाडल्या | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00004 | मुरम्या | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00005 | धन्डेडा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00006 | घिचलाय | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00007 | निपान्याहुरहुर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00008 | लकुमडी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00009 | जोलाय | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00010 | खूटखेडा | - | सोयाबीन | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------|----------------|---|---------|---|---|---|
| | | 00011 | पटाडियानजदीक | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00012 | कुमारिया बनवीर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00013 | खेरियाजागीर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00014 | टुमनी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00015 | रजापुर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00016 | गढखजूरिया | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00017 | जामगोद | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00018 | छायनमेना | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00019 | तालोद | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00020 | कचनारियाडकले | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00021 | बेराखेडी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00022 | पटाडियाताज | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00023 | देहरी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00024 | गन्धर्वपुरी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00025 | गुराडियाकाठी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00026 | हरनावदा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00027 | दुधलाई | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00028 | खजूरियाकका | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00029 | लोन्दिया | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00030 | धतुरियाराम | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00056 | सोनकच्छ | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00062 | अगेरा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00063 | तालाखेडी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00064 | दौलतपुर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00065 | पारदीखेडा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00066 | चौबाराजागीर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00067 | मुण्डलाहाना | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00068 | जामली | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00069 | चांदाखेडी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | हाटपिपल्या | | | | | | | |
| | | हाटपिप | | | | | | |
| | | 00001 | शिवपुरमुण्डला | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00002 | बोरखेडीपुरल्या | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00003 | घटयाग्यासूर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00004 | पुनासा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00005 | रोजडी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00006 | नेवरी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00007 | मानकुण्ड | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00009 | सेमलीबुजुर्ग | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00008 | हेदरपुर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00010 | देवगड | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00011 | हाथीगुराडिया | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00012 | मेडिया | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00013 | मनापिपल्या | - | सोयाबीन | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|--------------|---|---------|---|---|---|
| | | 00014 | फांगटी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00015 | बडियामाण्डू | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00016 | बामनी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00017 | गोला | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00019 | नानूखेडा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00020 | खोकरिया | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00021 | गुसट | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00022 | टप्पासुकलिया | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00023 | बारोली | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00024 | भीलआमला | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00025 | डीगरखेडा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00026 | डिगोद | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00027 | कवडिया | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00028 | कांजर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00029 | लसुडियाहातू | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00030 | पितावली | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00031 | खजूरियाबीना | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00032 | हाटपिपल्या | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00033 | लिम्बोदा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00034 | अरलावदा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00035 | महुखेडा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00036 | मनासा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00037 | बवलिया | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00038 | देहरियासाहू | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00039 | सादीपुरा | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00040 | चांसिया | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00018 | आमलाताज | - | सोयाबीन | - | - | - |

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी

| मौसम खरीफ | | वर्ष | 2015-2016 | 100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार सूची | | | | | | | |
|-----------|-------------|----------------|-----------------|--|------------|-------------|------------|------------|-------|-------|---|
| जिला | तहसील | रा.नि.म.का नाम | पटवारी हल्का न. | पटवारी मुख्यालय का नाम | धान सिंचित | धान असिंचित | सोयाबीन | तुअर | मक्का | बाजरा | |
| सिवनी | केवलारी | उगली | 00047 | सोनखार | | धानअसिंचित | - | - | - | - | |
| | | | 00048 | नेवरगांव | | धानअसिंचित | - | - | - | - | |
| | | | 00050 | रुमाल | | धानसिंचित | धानअसिंचित | - | - | - | - |
| | | | 00051 | सारसडोल | | धानसिंचित | - | - | - | - | - |
| | | | 00052 | बावली | | | धानअसिंचित | - | - | - | - |
| | | | 00053 | मोहवरी | | | धानसिंचित | धानअसिंचित | - | - | - |
| | | | 00054 | उगली | | | धानसिंचित | धानअसिंचित | - | - | - |
| | | | 00055 | खामी | | | धानसिंचित | धानअसिंचित | - | - | - |
| | | | 00056 | मलारी | | | धानसिंचित | - | - | - | - |
| | | | 00057 | चिखली | | | धानसिंचित | धानअसिंचित | - | - | - |
| | | | 00058 | घूरवाडा | | | धानसिंचित | - | - | - | - |
| | | | 00059 | खेरी | | | धानसिंचित | धानअसिंचित | - | - | - |
| | | | 00060 | दुटेरा | | | धानसिंचित | धानअसिंचित | - | - | - |
| | | | 00061 | सरंडी | | | धानसिंचित | - | - | - | - |
| | | | 00062 | सरेखाकलौ | | | धानसिंचित | धानअसिंचित | - | - | - |
| | | | 00063 | विभारी | | | धानसिंचित | धानअसिंचित | - | - | - |
| | | | 00064 | सकरी | | | धानसिंचित | धानअसिंचित | - | - | - |
| | | | 00065 | पांडीवाडा | | | | धानअसिंचित | - | - | - |
| | | | 00066 | रतनपुर | | | | धानअसिंचित | - | - | - |
| | | | 00067 | पिपरिया | | | | धानअसिंचित | - | - | - |
| | | | 00068 | बेलगांव | | | | धानअसिंचित | - | - | - |
| | | | 00069 | उगदीवाडा | | | | धानअसिंचित | - | - | - |
| | | | 00070 | नसीपुर | | | | धानअसिंचित | - | - | - |
| | | | 00071 | दुरैदा | | | | धानअसिंचित | - | - | - |
| 00072 | बांगडोगरी | | | | धानअसिंचित | - | - | - | | | |
| 00073 | पा0 छपारा | | | | धानअसिंचित | - | - | - | | | |
| 00074 | जेवनारा | | | | धानसिंचित | धानअसिंचित | - | - | | | |
| 00075 | खुरसुरा | | | | धानसिंचित | धानअसिंचित | - | - | | | |
| 00076 | कनारी | | | | | धानअसिंचित | - | - | | | |
| 00077 | भरवेली | | | | | धानअसिंचित | - | - | | | |
| 00078 | बनाथर | | | | | धानअसिंचित | - | - | | | |
| केवलारी | 00016 | पारसपानी | | | | धानअसिंचित | - | - | - | | |
| | 00017 | डोकरराजी | | | | धानअसिंचित | - | - | - | | |
| | 00018 | बिनेकी | | | | धानअसिंचित | - | - | - | | |
| | 00019 | मलारा | | | | धानअसिंचित | - | - | - | | |
| | 00020 | खरसारु | | | | धानअसिंचित | - | - | - | | |
| | 00021 | खापा | | | | धानअसिंचित | - | - | - | | |
| | 00022 | बन्देली | | | | धानअसिंचित | - | - | - | | |
| 00023 | अहरवाडा | | | | धानअसिंचित | - | - | - | | | |
| 00024 | केवलारीखेडा | | | | धानअसिंचित | - | - | - | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------|----------|-----------|---|---|---|---|
| | 00025 | टाली | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00026 | खुरसीपार मा0 | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00027 | माल्दनवाडा | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00028 | छींदा | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00029 | पोंगार | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00030 | रायखेडा | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00031 | तिन्दुवा | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00032 | गुदरिया | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00033 | पुनरी | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00034 | सुन्हेरा | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00035 | गुवारी | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00036 | खैराजी | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00037 | बिछुवा र. | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00038 | सुकतरा | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00039 | बोधिया | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00040 | डोभ | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00041 | केवलादी | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00042 | अलौनीखापा मा0 | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00043 | झौला | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00044 | बगलई | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00045 | जामुनपानी | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00046 | अर्जुनझिर | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | पनारी | | | | | | |
| | 00001 | डुगरिया | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00002 | खापा | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00003 | गुवारी | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00004 | घंसीर | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00005 | चिरचिरा | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00006 | पिपरिया कलां | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00007 | मैरा | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00008 | खैरा | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00009 | लोपा | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00010 | मुनगापार | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00011 | सरेखा | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00012 | पांजरा | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00013 | झागरा | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00014 | पाथरफोडी मा0 | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00015 | दुटेरा | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | घंसीर | | | | | | |
| | | कहानी | | | | | | |
| | 00001 | कत्ती र0 | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00008 | नयेगांव | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00015 | दलका पाडीवाडा | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00016 | साल्हेपानी | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00018 | दुर्जनपुर | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00019 | पनारझिर | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00020 | बरेला | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00022 | रूपदौन मा. | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00023 | सारसडोल | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00024 | बिनेकीकलां | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00026 | बरोदा मा. | धानसिचित | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | 00027 | सरोरा | | धानअसिचित | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--------------|----------|-----------|---------|---|-------|---|
| | | 00028 | मेहता | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00029 | दारोटकर्ना | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00030 | बटवानी | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00032 | गोन्धिया | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00033 | रमपुरी | धानसिचित | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00034 | सुचानमेटा | धानसिचित | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00035 | अगरिया खुर्द | धानसिचित | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | छपारा | | | | | | | | |
| | चमारी | | | | | | | | |
| | | 00009 | देवरीकला | | धानअसिचित | - | - | मक्का | - |
| | छपारा | | | | | | | | |
| | | 00035 | खेरी | | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00036 | पायली खुर्द | धानसिचित | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00037 | सुआखेडा | | धानअसिचित | - | - | मक्का | - |
| | | 00039 | सादकसिवनी | | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00040 | बिछुआ बरी | | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00041 | छपारा कलां | | धानअसिचित | सोयाबीन | - | मक्का | - |
| | | 00042 | डुःप्रपारा | | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00043 | खुरसीपार | | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00044 | गोरखपुर | | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00045 | प्रतापगढ | धानसिचित | - | - | - | मक्का | - |
| | | 00046 | बिहिरियां | | धानअसिचित | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00048 | विलकटा | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00049 | भीमगढ रं. | | धानअसिचित | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00038 | गोहना | | धानअसिचित | - | - | मक्का | - |
| | | 00051 | सुवरी | | धानअसिचित | - | - | मक्का | - |
| | | 00052 | कौंडिया मा. | | धानअसिचित | - | - | मक्का | - |
| | | 00053 | सागर | | धानअसिचित | - | - | मक्का | - |
| | | 00054 | पायली | | धानअसिचित | - | - | मक्का | - |
| | | 00047 | अंजनियां | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | धनौरा | | | | | | | | |
| | धनौरा | | | | | | | | |
| | | 00002 | हिगवानी | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00003 | घाटपिपरिया | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00005 | सालीवाडा | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00006 | पिपरिया | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00007 | सलेमा | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00008 | सरौ | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00009 | नुआ धोधरा | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00010 | मुर्गाई | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00011 | मढदेवरी | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00012 | वेगरवानी | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00013 | पिड्ढाबोडी | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00014 | लाबेसरी | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00015 | गनेरी | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00016 | घोषरी मा. | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00017 | धनौरा | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00018 | साजपानी | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00019 | बरेली | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00020 | उमरपानी | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00021 | गुधना | | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00022 | जामुनपानी | | धानअसिचित | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-------|-----------------|-----------|---------|---|-------|---|
| | | 00023 | झलवानी मा. | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00024 | धनीरा खुर्द | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00025 | पिपरिया | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00026 | कुड्डो | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00027 | बम्होडी | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00028 | बगहाई | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00029 | वारागौर | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00030 | रावठान | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00031 | सुकवाह | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00032 | आमानाला | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00033 | अभोली | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00034 | सुनवारा | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00035 | सकरी | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00036 | गोरखपुर | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00037 | हरई | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00038 | नोनिया | धानअसिचित | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00039 | बोरिया | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00040 | देवरी | धानअसिचित | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00041 | हरदुली | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00042 | बरबसपुर | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00043 | भुरकुडी | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00044 | दौदाधानी | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00045 | कुडारी | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00046 | थावरी | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00047 | देवरी टीका | धानअसिचित | - | - | मक्का | - |
| | | 00001 | खमरिया | धानअसिचित | - | - | - | - |
| | | 00004 | ग्दारी | धानअसिचित | - | - | - | - |
| सिवनी | भोमा | | | | | | | |
| | | 00042 | भाटीवाडा | धानअसिचित | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00043 | पौडी | धानअसिचित | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00044 | खिरखिरी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00045 | महलोन | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00046 | कलारबांकी | धानअसिचित | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00047 | थावरी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00048 | झोकरराजी | धानअसिचित | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00049 | बगलई | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00050 | चन्दनवाडा कला | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00051 | चन्दनवाडा खुर्द | धानअसिचित | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00052 | थावरी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00053 | हिनीतिया | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00054 | आगाकोला | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00055 | डिवटी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00056 | छतरपुर | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00057 | मुण्डरई | धानअसिचित | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00058 | जोरावारी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00059 | बम्हनी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00060 | खेरी | धानअसिचित | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00061 | जुरतरा | धानअसिचित | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00062 | ढेका | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00063 | खमरिया | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00064 | सिधोडी | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00065 | डूण्डासिवनी | - | सोयाबीन | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---------------|-----------|------------|---------|---|---|---|
| | | 00066 | मानेगांव | | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00067 | मोरडोगरी | धानसिंचित | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00068 | छुई | धानसिंचित | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00069 | उमरिया | धानसिंचित | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00070 | कान्हीवाडा | धानसिंचित | धानअसिंचित | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00071 | चुटका | धानसिंचित | धानअसिंचित | - | - | - | - |
| | | 00072 | भटेखारी | धानसिंचित | धानअसिंचित | - | - | - | - |
| | | 00073 | कामता | धानसिंचित | धानअसिंचित | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00074 | कटिया | धानसिंचित | - | - | - | - | - |
| | | 00075 | भोमा | धानसिंचित | - | - | - | - | - |
| | | 00076 | भोमाटोला | धानसिंचित | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00077 | कन्हानपिपरिया | | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00078 | सीलावाडा | धानसिंचित | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00079 | छीतापार | धानसिंचित | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00080 | झीलपिपरिया | | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | 00081 | ईदावाडी | धानसिंचित | धानअसिंचित | - | - | - | - |
| | | 00082 | उडेपानी | धानसिंचित | - | - | - | - | - |
| | | 00083 | विजपानीखुर्द | धानसिंचित | - | - | - | - | - |
| | | 00084 | मुंडरई | धानसिंचित | - | - | - | - | - |
| | | 00085 | माहुलाशिर | धानसिंचित | धानअसिंचित | - | - | - | - |
| | | 00086 | समनापुर | धानसिंचित | धानअसिंचित | - | - | - | - |
| | | 00087 | मेहरापिपरिया | धानसिंचित | धानअसिंचित | - | - | - | - |
| | | 00088 | मैली | | धानअसिंचित | - | - | - | - |
| | | 00089 | लुंगसा | धानसिंचित | धानअसिंचित | - | - | - | - |
| | | 00090 | महराखापा | धानसिंचित | धानअसिंचित | - | - | - | - |
| | | 00091 | करकोटी | धानसिंचित | - | - | - | - | - |
| | | 00092 | पाथरफोडी | धानसिंचित | - | - | - | - | - |
| | | 00093 | चीचबद | धानसिंचित | - | - | - | - | - |
| | | 00094 | डुंगरिया | धानसिंचित | - | - | - | - | - |

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्कों की सूची

| मौसम | खरीफ | | वर्ष 2015 | 100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची | | | | | | |
|-------|-------|-----------------|------------------|---|------------|-------------|---------|------|-------|-------|
| जिला | तहसील | रा.नि.म. का नाम | पटवारी हल्का नं. | पटवारी मुख्यालय का नाम | धान सिंचित | धान असिंचित | सोयाबीन | तुअर | मक्का | बाजरा |
| सागर | | महाराजपुर | 64 | रसेना | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | शाहगढ | 41 | उजनेटी | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| दतिया | | | | | | | | | | |
| | बडौनी | विल्हारीखुर्द | 25 | सनाई | धान सिंचित | - | - | - | - | - |
| | | | 31 | गोचारी | धान सिंचित | - | - | - | - | - |
| | | | 34 | लमकना | धान सिंचित | - | - | - | - | - |